

नवीनीकरण के लिए वरिष्ठ केंद्र बंद करने के लिए अपडेट:

प्रभावी 25 सितंबर

फिटनेस कक्षाएं (जुम्बा, लाइन डांसिंग, स्ट्रेथ / बैलेंस, और चेयर) नियमित रूप से निर्धारित समय के दौरान अमेरिकन लीजन में आयोजित की जाएंगी।

बस शटल सामान्य रूप से चलेगी - शेड्यूलिंग के लिए हमेशा की तरह वेंडी से संपर्क करें।

दुकानों के लिए नियमित शटल शेड्यूल सामान्य रूप से चलेगा - शेड्यूलिंग के लिए वेंडी से संपर्क करें।

मेट्रोचेन पब्लिक लाइब्रेरी ने हमें हर रोज जगह प्रदान की है ताकि हमारे सदस्यों को कार्ड या गेम खेलने की अनुमति मिल सके, या समुदाय या गतिविधि कक्ष में सामूहिकरण हो सके। हमारे सदस्यों द्वारा किसी भी गतिविधि में इन कमरों का साझा उपयोग शामिल है - यदि आप कमरे का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकतानुसार कमरे को साझा करना होगा, बहुत सारे कमरे हैं।

9/25: 1-3 बजे - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

9/26: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

9/27: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - गतिविधि कक्ष (नीचे)

9/28: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

9/29: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/2: 12-3 बजे - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/3: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/4: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - गतिविधि कक्ष (नीचे)

10/5: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/6: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/9: बंद

10/10: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/11: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - गतिविधि कक्ष (नीचे)

10/12: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)

10/13: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक - सामुदायिक कक्ष (ऊपर)